

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, आरा ।

पत्रांक 327

आरा, दिनांक 20/02/2023

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, आरा ।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना ।

विषय:-

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत पथों की
अधियाचना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण
नीति-2018 के तहत पथों के भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार रु0-49.16854
लाख रु0 की आवश्यकता है ।

अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र उक्त राशि को आवंटित करने की कृपा
की जाय, जिससे संवेदक का भुगतान किया जा सकें ।

अनु0 यथोक्त ।

17/02/2023

विश्वासभाजन

17/02/23
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, आरा ।
17-02-23

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (In Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/22-23/Ara/19	Sakaddi Sandesh PWD Road to Chandl Anusuchit Jati Tola Road	10401613010	458/04.07.22	2.30	68.965	49.16854	19.61644	27/MR3054/MB D/2022-23	06-Sep-23	---	3209	25mm	5.0	0.00000	0.00000	49.16854	Physically Completed
		Total															49.16854	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed.
2. Up-to date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Divisional Accounts Officer
R.W.D.(V) Div. Ara

[Signature]
17/10/2023

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Ara

[Signature]
17/10/23

FORM GFR 19-A
(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of utilisation Certification up to month of Feb, 2023
MR Maintenance Policy- 2018
R.W.D. Works Division-Ara (Bhojpur)

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (In Rs. Lacs)	Amount Received (In Rs. Lacs)	Particulars
1.	Construction of Rural Road under MR Maint. Policy- 2018	Letter No-04 we Date- 10.01.2023	649207995.00	Certified that out of Rs. 649207995.00 Lacs of grant in aid received during the Year 2022-23 in favour of Executive Engineer, RWD Bihar R.W.D. Ara. A sum of Rs. 630095178.00 Lacs has been utilized for the purpose of MR Maint. Policy- 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 19112817.00 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
		Total	649207995.00	


2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kind of Checks exercised:-

- I. Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- II. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- III. Construction materials have been tested.
- IV. Measurements have been recorded in the MBS and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- V. All other codal formalities have been observed.

3. Physical progress achieved:

- i. Construction of Road Works.
- ii. Construction of CD Works.


D.A.O
Rural Works Department
Works Div-Ara



Executive Engineer
Rural Works Department
Works Div. Ara

प्रमाण पत्र

शीर्ष:- 3054 एम0आर0 (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण 2018)


योजना:- Sakaddi Sandesh PWD Road to Chandi Anusuchit Jati Tola Road

1. मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है।
2. कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।



कनीय अभियंता
कार्य प्रशाखा, कोइलवर

सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल, कोइलवर



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा

ROAD NAME-SAKDI SANDESH PWD ROAD TO CHANDI ANUSUCHIT JATI TOLA ROAD CONTRACTOR NAME-SHUBHAM CONSTRUCTION(prop-Anju Ray)

Date	Time	Section	No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR	IRI, CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
17/02/23	11:29:24	21	0.1	270	0	2800	2974 G	25.532028	84.746838	Normal	
17/02/23	11:32:3	21	0.1	290	10.1	3200	3352 G	25.532707	84.746556	Normal	X = 2800
17/02/23	11:32:38	21	0.1	310	10.1	3100	3276 G	25.533621	84.746262	Normal	Y = 2787
17/02/23	11:33:0	21	0.1	280	20.2	2800	2977 G	25.533734	84.745372	Normal	
17/02/23	11:33:14	21	0.1	320	20.2	2900	3456 G	25.53375	84.744679	Curve	(R) RURAL ROAD
17/02/23	11:33:14	21	0.1	300	20.2	3000	3007 G	25.534113	84.743648	Normal	Good
17/02/23	11:34:40	21	0.1	280	10.1	3400	3598 G	25.534758	84.743381	Normal	Average
17/02/23	11:35:0	21	0.1	290	20.2	2900	3098 G	25.534873	84.742273	Normal	Poor
17/02/23	11:35:15	21	0.1	270	20.2	3100	3289 G	25.534805	84.741756	Curve	<4000
17/02/23	11:35:15	21	0.1	250	20.2	3400	3529 G	25.534819	84.741368	Normal	4001-5000
17/02/23	11:36:0	21	0.1	310	10.1	2900	3086 G	25.534996	84.740084	Normal	>5001
17/02/23	11:36:40	21	0.1	310	10.1	3200	3345 G	25.535549	84.74376	Normal	
17/02/23	11:37:0	21	0.1	280	20.2	2800	2987 G	25.535981	84.743808	Curve	
17/02/23	11:37:15	21	0.1	300	20.2	3000	3127 G	25.534827	84.74738	Normal	
17/02/23	11:37:15	21	0.1	240	20.2	3300	3467 G	25.536304	84.745187	Normal	
17/02/23	11:38:0	21	0.1	340	10.1	3400	3500 G	25.537456	84.744971	Curve	
17/02/23	11:38:40	21	0.1	310	10.1	2800	2987 G	25.537743	84.744667	Normal	
17/02/23	11:39:0	21	0.1	280	20.2	2800	2874 G	25.538658	84.744701	Normal	
17/02/23	11:39:15	21	0.1	320	20.2	3200	3345 G	25.537224	84.746008	Normal	
17/02/23	11:39:15	21	0.1	300	20.2	3000	3127 G	25.53711	84.74839	Curve	
17/02/23	11:40:0	21	0.1	340	10.1	2800	2981 G	25.536954	84.747512	Normal	
17/02/23	11:40:0	21	0.1	280	10.1	2900	3098 G	25.536955	84.747513	Normal	
17/02/23	11:41:0	21	0.1	260	10.1	3200	3328 G	25.53638	84.748312	Normal	
TOTAL				73808							
AVERAGE				3209							


672

[Signature]

[Signature]

18/02/23

File : C:\Users\BRDDA 52\Desktop\SANJAY RAY.xlsx Section No. : 21, Eqn : $Y = 0 * X^2 + 0.969 * X + 74.60$
 Name of Customer : Shubham Constuction(Pro-Anju Ray). Name of Work/ Road : Sakaddi sandesh PWD Road to



Handwritten signature
 12/12/23

Handwritten signature
 12/12/23